

राष्ट्रीय सेवा योजना
राठ महाविद्यालय पैठाणी पौडी गढवाल
(संबद्धता-हे0न0ब0 गढवाल (केंद्रीय) विश्वविद्यालय श्रीनगर गढवाल)

‘ अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ’
(दिनांक 10 दिसम्बर 2022)

Table of Contents

S.N	Name pf Programe	Name Of Activities	Date	Session	Page No.
15.	International Human Rights day	Symposium on “Development of human qualities and human rights	10 December 2022	2022-23	25

International Human Rights day (10 december 2022) Human rights were discussed today under the aegis of National Service Scheme (NSS) unit of the College. The topic of discussion was “Development of human qualities and human rights. In the seminar organized on the subject, the speakers said that until human being unless human qualities are developed which in, man will remain man’s enemy. Love affection , tolerance are impotent qualitates of humanity. Therefore, it was unanimously accepted that only a personality full of human qualities can respect the dignity of man. The seminar was addressed by volunteer students Anjali, Deeksha Nautiyal and Anita.



मानव अधिकारों को लेकर 'राष्ट्रीय सेवा योजना की महाविद्यालय इकाई द्वारा आयोजित की गई विचार गोष्ठी।

संजय कुमार राजपूत

पौड़ी गढ़वाल, पैठाणी। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस के सुअवसर पर राठ महाविद्यालय पैठाणी पौड़ी गढ़वाल में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व प्रधानाचार्य श्री डी० एस० नेगी उपस्थित रहे। मानव अधिकारों को लेकर प्राध्यापकों व स्वयंसेवी छात्र / छात्राओं के मध्य हुए व्यापक विचार-विचार विमर्श में वक्ताओं ने कहा की मानव व मनुष्यता की गरिमा की सुरक्षा अत्यंत जरूरी है। वर्तमान में चर्चित अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या को डॉ० विरेन्द्र चंद ने कहा की जनता की जागरूकता का परिणाम है, की सरकार लगातार अपराधियों को खोज रही है। उन्होंने कहा की जब हम जागरूक होंगे और दूसरों के अधिकारों को लेकर भी सजग होंगे तो निश्चय ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। डॉ० राजीव दुबे ने कहा की मानवता के इतिहास में दो युद्धों की विभीषिका झेली हैं और उसका परिणाम भी दुनिया में देखा है। जब तक मनुष्य, मनुष्य राष्ट्र, राष्ट्र को सम्मान नहीं देगा तब तक ऐसी त्रासदियों मानवता को झेलनी ही पड़ेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री डी०एस० नेगी कहा की सभी मनुष्य एक सामान हैं क्रोड़ बड़ा अथवा छोटा नहीं हो सकता। मानव जन्म से समान है। इसीलिये समानता के आधार पर उसके साथ प्रेम और भ्रातृत्व का व्यवहार किया जाना चाहिए। स्वयं सेवी छात्रा कु० अंजलि ने कहा की सयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में स्थापित मानवाधिकार आयोग इसीलिये स्थापित किया गया था की वह मनुष्य के मुलभूत प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके। कु० अनीता ने कहा की आज भी हमारा समाज जातियों और वर्गों में बंटा हुआ है। जब तक ये जातीय विभिन्नता खत्म नहीं हो जाती तब तक मानव अधिकारों की सुरक्षा होना संभव नहीं है। उन्होंने महिला-पुरुषों के बीच में अंतर को भी साझा किया जबकि आज बेटियों आसमान छू रही है। कु० दीक्षा नौदियाल ने कहा की समाज में प्रेम और शोहराद अत्यंत जरूरी है। विचार गोष्ठी का शुभारम्भ मुख्य अतिथि श्री डी० एस० नेगी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। स्वयं सेवी छात्र-छात्राओं द्वारा सरस्वती वन्दना तथा दूसरे प्रेरणा गीत, लोकगीत के साथ शुरू हुआ।

विज्ञापन, समाचार, लेख, कहानी आदि प्रकाशित कराने के लिए सम्पर्क करें
राष्ट्रीय:- +919760241521, उत्तराखंड: 8923196960



लोक संहिता प्रतिनिधि पैठाणी। राठ महाविद्यालय गरी पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व प्रधानाचार्य श्री डी०एस० नेगी उपस्थित रहे।

संघर्ष के लिए एक अनोखी पालत है, जिसमें हर संस्कारों के अवसर पर पौधारोपण का कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि समलैंगी पौधारोपण आज राज्य से हटकर अन्य राज्यों में चलना जा रहा है, जिसमें लोग बड़-बड़कर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से इस पालत को आगे बढ़ाने की अपील की।

दौलत नकारात्मक राजनीति के दुष्प्रचार का काम रहे थे। यह लो चुनवा में विफल होने के बावजूद हो गए और अब जनता में बीच नहीं आते हैं। तृपिकेन विधायनशाखा क्षेत्र में विकास कार्य उनकी जिम्मेवारी है, इसके लिए व सर्वे प्रयास करें। धन की कमी विकास कार्यों में नहीं आने जायेगी।

विश्व मानवाधिकार दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजित



लोक संहिता प्रतिनिधि पैठाणी। राठ महाविद्यालय गरी पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व प्रधानाचार्य श्री डी०एस० नेगी उपस्थित रहे।

डॉ०एस० नेगी ने कहा कि मनुष्य एक समान है कहीं बर अथवा छोटा नहीं हो सकता मानव जन्म से समान है इसीलिये समानता के आधार पर उसके साथ प्रेम और भ्रातृत्व का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके साथ स्वयंसेवी छात्र अंजलि ने कहा कि सयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में स्थापित मानवाधिकार आयोग इसीलिये स्थापित किया गया था कि मनुष्य के मुलभूत प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके अनीता ने कहा कि आज मनुष्य समाज जातियों और वर्गों में बंटा हुआ है। जब तक ये जातीय विभिन्नता खत्म नहीं हो जाती, तब तक मानव अधिकारों की सुरक्षा होना संभव नहीं है। उन्होंने महिला-पुरुषों के बीच में अंतर को भी साझा किया और कहा कि आज बेटियों आसमान छू रही है दीक्षा नौदियाल ने कहा कि समाज में प्रेम और शोहराद अत्यंत जरूरी है। इस मौके पर महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक व स्वयंसेव छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

स्वयंसेवी छात्र-छात्राओं ने सरस्वती वन्दना तथा दूसरे प्रेरणा गीत, लोकगीत गाए। गोष्ठी में मानवाधिकारों को लेकर प्राध्यापकों व स्वयंसेवी छात्र-छात्राओं के मध्य हुए व्यापक विचार-विमर्श में वक्ताओं ने कहा कि मानव व मनुष्यता को नासना की सुरक्षा अत्यंत जरूरी है। वर्तमान में चर्चित अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या पर डॉ० विरेन्द्र चंद ने कहा कि जनता की जागरूकता का परिणाम है कि सरकार लगातार अपराधियों को खोज रही है। उन्होंने कहा कि जब हम जागरूक होंगे और दूसरों के अधिकारों को लेकर भी सजग होंगे तो निश्चय ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। डॉ० राजीव दुबे ने कहा की मानवता के इतिहास में दो युद्धों की विभीषिका झेली हैं और उसका परिणाम भी दुनिया में देखा है। जब तक मनुष्य, मनुष्य राष्ट्र, राष्ट्र को सम्मान नहीं देगा, तब तक ऐसी त्रासदियों मानवता को झेलनी ही पड़ेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे

दुध्याड़ी देवी मेले में श्रद्धालुओं मांगी मन्नत

जुड़ टिहरी। चिल्लाता के गोमनदु में पैठाणी में आयोजित दुध्याड़ी देवी मेले में श्रद्धालुओं की मांगी मन्नत। श्रद्धालुओं ने पाड़े देवी के दर्शन कर देवी को मन्नत और पिच्छा भेंट कर मनीषी हैं।

मेला समिति के अध्यक्ष पुरुष 5 पंचवार में बताया 14 नवंबर को दस मंत्री सतपाल महाजन दुध्याड़ी देवी मेले शरभन करेगे। 12 वर्ष बाद आयोजित हो रहे दुध्याड़ी देवी मेले में श्रद्धालुओं की मांगी मन्नत और पिच्छा भेंट कर मनीषी हैं।

मेला समिति के अध्यक्ष पुरुष 5 पंचवार में बताया 14 नवंबर को दस मंत्री सतपाल महाजन दुध्याड़ी देवी मेले शरभन करेगे। 12 वर्ष बाद आयोजित हो रहे दुध्याड़ी देवी मेले में श्रद्धालुओं की मांगी मन्नत और पिच्छा भेंट कर मनीषी हैं।

मानवाधिकार के मूल्यों में ही स्वतंत्रता निहित है

अधिकार। लक्ष्मी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मानवाधिकार के मूल्यों में ही स्वतंत्रता निहित है। इसके सुनिश्चित होने पर ही न्याय को संभव बनाया जा सकता है। शनिवार को वैजय गेट स्थित कैम क्लब में विश्व मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। डॉ० विरेन्द्र चंद ने कहा कि मनुष्य राष्ट्र को सम्मान नहीं देगा, तब तक ऐसी त्रासदियों मानवता को झेलनी ही पड़ेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे

गीता मानव

लोक संहिता प्रतिनिधि पैठाणी। राठ महाविद्यालय गरी पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व प्रधानाचार्य श्री डी०एस० नेगी उपस्थित रहे।

10-12-2022

APPU

DATE -----

PAGE -----

कार्यक्रम का नाम : विश्व मानवाधिकार दिवस

10 दिसम्बर - 2022 :-


राष्ट्रिय सेवा योजना (एन.एस.एस.) इकाई
 राठ महविद्यालय में केरली पैंडो गल्लाल द्वारा
 आज शनिवार 10 दिसम्बर 2022 को सात 11:00
 बजे से कला प्रदर्शन भवन कम सं-07 में
 मानवाधिकारों को उपस्थित स्वयंसेवा दाय-दायाडिंग
 व प्राध्यापकों द्वारा सम्बोधित किया गया।
 विचार गोष्ठी की अध्यक्षता महविद्यालय
 के कनिष्ठ प्राध्यापक डॉ. डोरसु वेणी ने की एवं
 संचालन कार्यक्रम अधिकारी (इकाई) डॉ. देव कृष्ण
 प्रणलिगत ने किया। गोष्ठी की, प्राध्यापक डॉ.
 जीरेन्दु चंद्र डॉ. राजीव दुबे व श्री डॉ. डोरसु
 वेणी ने उस्तावा, स्वयं सेवा दाय-दायाडिंग
 को दोहा नोटिआल डे व कू आनता ने सम्बोधि
 किया।

सभी कलाओं का विचार था कि जब तक
 अनुष्ण के भीतर साठिठाना व प्रेम-भाई-पार को
 भावना विकसित नहीं होगी तब तक मानवाधिकारों
 सुरक्षा संभव नहीं है।


- 1) श्री दत्तगिर सिंह नंगी
- 2) डॉ. जीरेन्दु चंद्र
- 3) डॉ. राजीव दुबे
- 4) - डॉ. देव कृष्ण

Handwritten signatures and marks

1	दीक्षा	Biksha	7505388615
2	प्रियंका	Priyanka	7818080781
3	Anjali	Anjali	9897671964
4	प्रीति	Prithi	7505721587
5	सोनिया	Soneya	8475843860
6	शिवानी	Shivani	7617464854
7	सौरा	Saurita	7906956607
8	नीलम	Neelam	6396869784
9	पूना	Poonam	9399519509
10	सपना	Sapna	8279344703
11	Anand kumar	Anuman.	8630940496
12	मुकेश	MUKESH	1017874876
13	Munish Khan	Munish Khan	9412896080
14	Amrita	Amrita	8279571994
15	Chanda	Chanda	7466819074
16	Sampati	Sampati	8126788551
17	राधिका	Radhika	8791180162
18	साक्षी	Sakshi	8057472154
19	बबिता	Babita	9548415759
20	प्रीति	Preeti	7505476435
21	दमयन्ती	Damnyanti	8755628541
22	शिवानी	Shivani	6397267502
23	राविना	Ravina	8475935286


 कार्यक्रम अधिकारी
 राष्ट्रीय सेवा योजना
 राठ महाविद्यालय पैठानी (पीठो) गढ़वाल

16/12/23


 प्राचार्य
 राठ महाविद्यालय पैठानी
 पीठो गढ़वाल, उत्तराखण्ड